



केलकता लगातार छठी जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बनाने वाले केलकता नाइट राइडर्स

आइपीएल के मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेंगे तो उनकी नजरें शीर्ष दो में जगह बनाने पर होगी। दो साल पहले वाला कश्मिमा दोहरा रही केलकता नाइट राइडर्स ने दो बार के पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और सतारों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर के हराया। अब उसके नजरें सनराइजर्स हैदराबाद के हराकर रेकॉर्ड लगातार सातवीं जीत दर्ज करने पर होगी जबकि हैदराबाद इस मैच के जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखना चाहेगा। हैदराबाद ने 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुरुवार के चेन्नई के दो गेंदें शेष रहते छह विकेट से हराया।

केलकता नाइट राइडर्स के शानदार फॉर्म के सूत्रधार रॉबिन उथप्पा रहे हैं जो इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन के प्रबल दावेदार हैं। वहीं रहस्यमयी स्पिनर सुनील नारायण लगातार केलकता नाइट राइडर्स का ट्रंपकर्ड नंबर वन बने हुए हैं। दोनों केलकता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजी और गेंदबाजी की रीढ़ हैं लेकिन शाकिब अल हसन, रयान टेन डोइशे, यूसुफ पठान, उमेश यादव और कप्तान गौतम गंभीर के योगदान को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

लगातार चार हार के साथ आगाज करने वाली केलकता नाइट राइडर्स ने टूर्नामेंट के भारत लौटने के बाद फॉर्म में वापसी की। बंगलूर के गुरुवार के उसने 196 रन का लक्ष्य दिया और वरिष्ठ केहली की टीम 30 रन से पीछे रह गई। उथप्पा ने 51 गेंदों में 83 और शाकिब ने 38 गेंदों में 60 रन बनाए। टूर्नामेंट में पांचवां अर्धशतक जमाकर वे ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ कर ऑरेंज कैप के हकदार हो गए हैं। नारायण ने केहली, युवराज और बी डविलियर्स के आउट करके रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर के चार विकेट सिर्फ 20 रन पर उखाड़ दिए। उथप्पा ने 13 मैचों में 572 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की तो नारायण 20 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार के साथ परपल कैप के हकदार बन गए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद का डेविड वॉर्नर से पारी की शुरुआत करने का फैसला सही साबित हुआ जिसकी बदौलत उसने लगातार तीन मैचों की हार का सिलसिला तोड़ कर बंगलूर और चेन्नई को हराया। वॉर्नर ने दोनों मैचों में अर्धशतक जमाया और दूसरा अर्धशतक 200 की स्ट्राइकरेट से बना। वे अब तक 13 मैचों में 524 रन बना चुके हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मैक्सवेल के बाद तीसरे स्थान पर हैं। शखिर धवन ने भी लगातार दो अर्धशतक लगाए हैं।

ईडन की ट्रन लेती विकेट पर हैदराबाद की चिंता का सबब स्पिन गेंदबाजी होगी जो अनुभवहीन लग रही है। कर्ण शर्मा और परवेज रसूल स्पिनर का जम्मा संभालेंगे चूंकि महंगे साबित होने के कारण अमति मशिरा बाहर हैं। हैदराबाद यदि जीतता है तो भी उसका प्लेऑफ में जाना बाकी दो मैचों के परिणाम पर निर्भर करेगा। केलकता नाइट राइडर्स अगर शीर्ष दो में रहता है तो उसे 27 मई क्वालीफायर अपने घरेलू मैदान ईडन पर खेलने का मौका मिलेगा।

{loadposition user13}

(भाषा)